



**Gulshan Polyols Limited**  
CIN : L24231UP2000PLC034918  
Corporate Office: G-81, Preet Vihar,  
Delhi-110092, India  
Phone : +91 11 49999200  
Fax : +91 11 49999202  
E-mail : gscldelhi@gulshanindia.com  
Website: www.gulshanindia.com

**GPLASEC\2020-21**  
**January 13, 2021**

**BSE Limited**  
Corporate Service Department,  
01st Floor, P. J. Towers,  
Dalal Street, Mumbai  
Maharashtra- 400 001

**Scrip Code: 532457**

**The National Stock Exchange of India Ltd.**  
Exchange Plaza, Plot No. C/1,  
'G' block, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai  
Maharashtra-400 051

**Scrip Code: GULPOLY**

**Subject: Newspaper Publications - Intimation of Board Meeting**

Dear Sir/Maám,

Pursuant to Regulation 30 and Part A of Schedule III read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated September 9, 2015 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisements pertaining to Notice of Board Meeting of the Company to be held on Wednesday, January 20, 2021. The advertisements were published in Financial Express (English), All India Edition and Jansatta (Hindi), today on January 13, 2021.


This will also be hosted on Company's website at [www.gulshanindia.com](http://www.gulshanindia.com) under Investors' Section.

This is for your information and records.

Thanking you,  
Yours faithfully

**For GULSHAN POLYOLS LIMITED**

**(Vijay Kumar Garg)**  
**Company Secretary**  
**M.No. ACS-37151**





**GULSHAN POLYOLS LIMITED**  
 Regd. Off.: 9<sup>th</sup> K.M. Jansath Road, Muzaffarnagar - 251 001 (UP)  
 Corporate Off.: G-81, Preet Vihar, Delhi - 110092  
 Tel.: 011-49999200, Fax: 011-49999202  
 CIN: L24231UP2000PLC034918  
 Website: www.gulshanindia.com, E-mail: cs@gulshanindia.com

**Notice of Board Meeting**  
 Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, January 20, 2021** at **G-81 Preet Vihar, Delhi - 110092**, inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2020 including other matters of the Company. The information contained in this Notice is also available on Company's website [www.gulshanindia.com](http://www.gulshanindia.com) and on the Stock Exchanges' website: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

For Gulshan Polyols Limited  
 Sd/-  
 (Vijay Garg)  
 Company Secretary  
 Delhi  
 January 12, 2021

**Shree Digvijay Cement Company Limited**  
 CIN: L26940GJ1944PLC000749  
 Digvijaygram, Jamnagar - 361 140 (Gujarat)  
 Email: investors.sdcd@digvijaycement.com Website: www.digvijaycement.com  
 Phone 0288-2344272-75, Fax No. 0288-2344092

**NOTICE**  
 NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with the Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, 27<sup>th</sup> January, 2021**, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended **31<sup>st</sup> December, 2020**.


This Notice is also available at Investors Section of the Company's website [www.digvijaycement.com](http://www.digvijaycement.com) and on the Stock Exchanges website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), where the shares of the Company are listed.

For Shree Digvijay Cement Co. Ltd.  
 Sd/-  
 Suresh Meher  
 Place : Digvijaygram  
 Date : 31<sup>st</sup> December, 2020  
 VP (Legal) & Company Secretary

**Nippon India Mutual Fund**  
 Wealth sets you free

**Nippon Life India Asset Management Limited**  
 (formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)  
 (CIN - L65910MH1995PLC220793)  
 Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013.  
 Tel No. +91 22 6808 7000 • Fax No. +91 22 6808 7097 • [mf.nipponindiaim.com](mailto:mf.nipponindiaim.com)

**NOTICE CUM ADDENDUM NO. 100**  
 Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/197 dated October 5, 2020 on "Product Labeling in Mutual Fund schemes - Risk-o-meter", the revised Risk-o-meter of Nippon India Passive Flexicap FoF ("Scheme") is as follows:

Scheme Name	Revised Risk-o-meter
Nippon India Passive Flexicap FoF	 Investors understand that their principal will be at Very High risk

This addendum forms an integral part of Scheme Information Document and Key Information Memorandum of the Scheme of Nippon India Mutual Fund and all the other terms and conditions of the aforesaid document(s) read with the addenda issued from time to time will remain unchanged.

For NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED  
 (formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)  
 (Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)  
 Sd/-  
 Mumbai  
 January 12, 2021  
 Authorised Signatory

**Make even idle money work! Invest in Mutual Funds**  
 Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

**ASSAM ELECTRICITY GRID CORPORATION LIMITED**  
 SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN)  
 Assignment Title: Procurement of Supply, Configuration, Integration, Installation, Implementation & Support of ERP Software (hereafter ERP System) for AEGCL, Assam, India.  
 RFB No. AEGCL/AIIB/ERP/PACKAGE-N1/38 Dated: 13/01/2021

The Government of India has applied for financing from Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) towards the cost of **Assam Intra-State Transmission System Enhancement Project ("the Project")** and intends to apply parts of the proceeds for this service.

The undersigned, now invites tenders from the qualified vendors for supply of Installation of ERP Application System. The tender document is available from 13/01/2021 to 01/03/2021 from the website [www.assamtenders.gov.in](http://www.assamtenders.gov.in) and [www.aegcl.co.in](http://www.aegcl.co.in)

Sd/- Project Director (AIIB), AEGCL

---

**BIGBLOC CONSTRUCTION LIMITED**  
 CIN: L45200GJ2015PLC083577  
 Regd. office: 6th Floor, A-601/B, International Trade Centre, Majura Gate, Ring Road, Surat 395 002. (Gujarat) INDIA.  
 Phone: +91-261-2463261, 2463262, 2463263, Fax: +91-261-2463264  
 Email: [bigblocconstructiontd@gmail.com](mailto:bigblocconstructiontd@gmail.com) Website: [www.bigblocconstruction.com](http://www.bigblocconstruction.com) / [www.rxtblbc.in](http://www.rxtblbc.in)

**NOTICE**  
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, 19th January, 2021 at 11:30 A.M.** at Registered Office of the company to consider and approve Un-Audited Financial Results of the Company for the third quarter ended on 31st December, 2020. This information is also available on the Company's website [www.bigblocconstruction.com](http://www.bigblocconstruction.com) / [www.rxtblbc.in](http://www.rxtblbc.in) and on the website of the Stock exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For BIGBLOC CONSTRUCTION LIMITED  
 Sd/-  
 (Shyam Kapadia)  
 Place : SURAT  
 Date : 12/01/2021  
 Company Secretary & Compliance officer

**Camlin KOKUYO**  
**KOKUYO CAMLIN LIMITED**  
 CIN: L24223MH1946PLC005434  
 Regd. Office: 48/2, Hilton House, Central Road, MIDC, Andheri (E), Mumbai - 400 093  
 Tel: 91-022-66557000  
 Fax: 91-022-28366579  
 E-mail: [investorrelations@kokuyocamlin.com](mailto:investorrelations@kokuyocamlin.com)  
 Website: [www.kokuyocamlin.com](http://www.kokuyocamlin.com)

**NOTICE**  
 Pursuant to Regulations 29 and 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company, will be held on Friday, the 29<sup>th</sup> January, 2021 to consider and approve inter-alia, the Un-audited Financial Results for the Third quarter and Nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2020.

Further, in line with Regulation 47(2) of the aforesaid Regulations, this Notice is also available on the websites of:  
 1. The Company viz [www.kokuyocamlin.com](http://www.kokuyocamlin.com)  
 2. BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com))

FOR KOKUYO CAMLIN LIMITED  
**RAVINDRA DAMLE**  
 VICE PRESIDENT (CORPORATE) & COMPANY SECRETARY  
 Place: Mumbai  
 Date : 13<sup>th</sup> January, 2021

**VIKAS MULTICORP LIMITED**  
 CIN: L25111DL1995PLC073719  
 Regd. Office: G-1 34/1, EAST PUNJABI BAGH, NEW DELHI-110026  
 Ph.: 011-40450110 | E-mail: [cs@vikasmulticorp.com](mailto:cs@vikasmulticorp.com) | URL: [www.vikasmulticorp.com](http://www.vikasmulticorp.com)

**EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE) For the Third Quarter and Nine Months Ended December 31, 2020**

Particulars	Three Months Ended			Nine Months Ended		Rs. In Lakhs
	31.12.2020 (Un-audited)	30.09.2020 (Un-audited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2020 (Un-audited)	31.12.2019 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
Total income from operations (net)	942.95	3,185.73	4,713.60	4,493.90	12,193.99	15,538.00
Net profit before Exceptional items and tax	10.27	41.79	156.63	62.61	383.90	353.93
Net Profit / (Loss) before tax	10.27	41.79	156.63	62.61	248.59	250.62
Net profit after tax	6.62	31.27	113.43	45.79	181.82	139.72
Total Comprehensive Income for the period	(1,418.65)	(441.15)	1,913.48	(1,853.01)	(106.89)	(3,672.60)
Equity Share Capital (Rs.)	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495	66,34,95,495
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic:	(0.21)	(0.07)	0.29	(0.28)	(0.02)	(0.55)
2. Diluted:	(0.21)	(0.07)	0.29	(0.28)	(0.02)	(0.55)

Notes:  
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results and nine months ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of Quarterly ended Financial Result are available on the website of the Stock Exchange ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).

2. The above results were reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their meeting held on 12.01.2021. The Audit has been conducted by statutory auditors of the company and they have issued Limited Review Report.

By order of the Board of Directors  
 For Vikas Multicorp Limited  
 Sd/-  
 Vivek Garg  
 Managing Director  
 Date: January 12, 2021  
 Place: New Delhi

**PGIM India Asset Management Private Limited**  
 (Erstwhile DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited)  
 2<sup>nd</sup> Floor, Nirfon House, Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai - 400 030.  
 Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100  
 CIN: U74900MH2008BFTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446  
 Website: [www.pgimindiamt.com](http://www.pgimindiamt.com)

**NOTICE [No. 39 of 2020-21]**  
 Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited (erstwhile DHFL Pramerica Trustees Private Limited), Trustee to PGIM India Mutual Fund, has approved declaration of dividend under the following schemes of PGIM India Mutual Fund with **January 18, 2021** as the record date:-

Scheme Names	Plans / Options	Quantum of dividend per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* ₹	Face Value (₹ per unit)	NAV of Dividend Option as on January 11, 2021 (₹ per unit)#
PGIM India Arbitrage Fund	Direct Plan - Monthly Dividend Option	0.042	10	10.5578
PGIM India Hybrid Equity Fund	Regular Plan - Monthly Dividend Option	0.124	10	21.89
	Direct Plan - Monthly Dividend Option	0.144	10	22.93
PGIM India Equity Saving Fund	Direct Plan - Monthly Dividend Option	0.07	10	12.7133

#Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option of the above-mentioned Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

Dividend will be paid to those unit holders whose names appear in the records of the Registrar as at the close of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in the beneficiary position file downloaded from the depositories as on the record date will be entitled to receive the dividend.

\*The dividend will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

For PGIM India Asset Management Private Limited  
 (Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)  
 Sd/-  
 Place: Mumbai  
 Date : January 12, 2021  
 Authorized Signatory

**MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.**

**From the Front Page**

**Biden inauguration: FBI issues armed protest warning**  
 He said the number could rise to 15,000 if requested by local authorities. At least one lawmaker asked the Pentagon to do more. Senator Chris Murphy, who said he was sending a letter to the acting secretary of defenses on Monday, said it was unclear if the National Guard would be sufficient to protect the nation's capital and that active-duty troops may be needed also.

"I'm not afraid of taking the oath outside," Biden told reporters in Newark, Delaware, referring to the traditional setting for the swearing-in ceremony on the Capitol grounds. But he said it was critically important that people "who engaged in sedition and threatened people's lives, defaced public property, caused great damage" be held accountable.

Biden's inaugural committee said on Monday the theme of the January 20 ceremony would be "America United".

Trump, who has sought unsuccessfully to overturn the November 3 election results with false claims of widespread fraud, said last week he would not attend the ceremony, a decision the president-elect supported.

The Park Service said it would suspend tours of the Washington Monument, an obelisk honouring the country's first president, due to safety concerns from threats to disrupt the inauguration.

Washington mayor Muriel Bowser called for the US interior department to cancel public-gathering permits through January 24. "This inaugural planning period has to be very different than all the others," she told reporters on Monday. - Reuters

**Policy update: WhatsApp says message privacy intact, change related to biz interaction:**  
 It added that WhatsApp accesses only the phone numbers from the address book (after getting user's permission) to make messaging fast and reliable, and that it doesn't share contact lists with the other apps Facebook offers.

"We use group membership to deliver messages and to protect our service from spam and abuse. We don't share this data with Facebook for ads purposes. Again, these private chats are end-to-end encrypted so we can't see their content," it noted. A report by internet security researcher Rajshekhar Rajaharia had claimed that at least 1,700 private WhatsApp group links were visible on Google through a web search. WhatsApp noted that users can choose to set their messages to disappear from chats "for additional privacy".

The messaging giant - which has about 400 million users in India - said it will always be clear within the app when users are communicating with any business that uses its features designed for commercial entities.

WhatsApp explained that some large businesses need to use hosting services to manage their communication, and that it provides them the option to use secure hosting services from Facebook to manage WhatsApp chats with their customers, answer questions, and send information like purchase receipts.

"But whether you communicate with a business by phone, email, or WhatsApp, it (business) can see what you're saying and may use that information for its own marketing purposes, which may include advertising on Facebook. To make sure you're informed, we clearly label conversations with businesses that are choosing to use hosting services from Facebook," WhatsApp added. WhatsApp said if users choose to interact with "Shops" (Facebook branded commerce feature), their shopping activity can be used to personalise their Shops experience and the ads users see on Facebook and Instagram.

"Features like this are optional and when you use them we will tell you in the app how your data is being shared with Facebook... If you have WhatsApp installed on your phone, you'll have the option to message that business. Facebook may use the way you interact with these ads to personalise the ads you see on Facebook," it added. Interestingly, a number of business leaders, including Mahindra Group chairman Anand Mahindra, Paytm founder Vijay Shekhar Sharma and PhonePe CEO Sameer Nigam, have spoken of moving to rival platforms. Mahindra said he had installed Signal, while Nigam said he had moved 1,000-plus "PhonePeers" to Signal, and recreated all his work groups and moved family groups.

"...WhatsApp is by far and away the best product I've ever seen in the social/comm category. I trusted the WA founders. I loved the simplicity of their product. Never imagined switching to another chat app. C'est la vie," Nigam tweeted. Sharma also advocated moving to Signal. "They say, market has power. We are the largest market. Here in India WhatsApp/Facebook are abusing their monopoly & taking away millions of users' privacy for granted. We should move on to @signalapp NOW. It is upto us to become victim or reject such moves," he said in a tweet.

**GOVERNMENT OF TAMILNADU**  
**WATER RESOURCES DEPARTMENT**  
**PALAR BASIN CIRCLE, CHEPAUK, CHENNAI - 5.**  
**Form of Contract : Lumpsum - Item Rate Contract**

**Short Term Tender Notice (Two Cover System)**  
**Short Term Tender Notice No. 11 / PBC / 2020-2021 / Dt. 12.01.2021**

For and on behalf of the Governor of Tamilnadu, the Superintending Engineer, WRD, Palar Basin Circle, Chennai - 5 invites tenders from eligible tenderers for the works of (1) "Construction of a Check Dam across the Kiliyar river near Sempoondi (Pasuvanganai) Village in Maduranthagam Taluk of Chengalpattu District" (2) "Reclaiming and Rejuvenating the Kolavoy Lake in Chengalpattu Taluk and District for augmenting drinking water supply to the extended Chennai Urban and Chengalpattu areas" at his office upto 3.00 P.M. on 02.02.2021 in sealed covers. The tender will be opened at 3.30 P.M. at his chamber on the same day.

Other information such as name of work, details of Work, Value, EMD, Cost of tender schedule, etc., will be available in the Government website "[www.tenders.tn.gov.in](http://www.tenders.tn.gov.in)". Any Corrections or Modifications will be published on website only.

**Superintending Engineer, WRD., Palar Basin Circle, Chennai - 5.**

DIPR/209/Tender/2021

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

**STOVE KRAFT LIMITED**

Our Company was incorporated as Stove Kraft Private Limited on June 28, 1999 with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Bangalore, Karnataka ("RoC") as a private limited company under the Companies Act, 1956. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at the extraordinary general meeting held on May 28, 2018 and the name of our Company was changed to Stove Kraft Limited. A fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the RoC on August 13, 2018. For further details in relation to the change in the name and the registered address of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 137 of the Draft Red Herring Prospectus.

**Registered and Corporate Office:** 61/1, Medamarana Halli Village, Harohalli Hobli, Kanakapura Taluk, Ramanagar District, 562 112, Karnataka, India.  
 Tel: +91 80 2801 6222; Fax: +91 80 2801 6209; **Contact Person:** Shashidhar SK, Chief Financial Officer, Company Secretary and Compliance Officer;  
 E-mail: [cs@stovekraft.com](mailto:cs@stovekraft.com); Website: [www.stovekraft.com](http://www.stovekraft.com); Corporate Identity Number: U29301KA1999PLC025387

**SECOND ADDENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED JANUARY 31, 2020: NOTICE TO INVESTORS (THE "SECOND ADDENDUM")**

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF STOVE KRAFT LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION ("OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹1,450.00 MILLION AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 7,163,721 EQUITY SHARES COMPRISING OF UP TO 640,906 EQUITY SHARES BY OUR PROMOTER, RAJENDRA GANDHI, UP TO 250,000 EQUITY SHARES BY OUR PROMOTER, SUNITA RAJENDRA GANDHI ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS"), UP TO 1,311,205 EQUITY SHARES BY SEQUOIA CAPITAL INDIA GROWTH INVESTMENT HOLDINGS I ("SCI-GIH") AND UP TO 4,961,610 EQUITY SHARES BY SCI Growth Investments I ("SCI", together with SCI-GIH, "Investor Selling Shareholders") (THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS) (THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, THE "SELLING SHAREHOLDERS"), AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION. THE OFFER WILL CONSTITUTE [•]%, OF THE POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

Potential Bidders may note the following:  
 a. The draft red herring prospectus dated January 31, 2020 ("DRHP") currently states that the Offer comprises of a Fresh Issue of Equity Shares aggregating up to ₹1,450 million by our Company and an Offer for Sale of up to 7,163,721 Equity Shares comprising of up to 640,906 Equity Shares by our Promoter, Rajendra Gandhi, up to 250,000 Equity Shares by our Promoter, Sunita Rajendra Gandhi ("Promoter Selling Shareholders"), up to 1,311,205 Equity Shares by Sequoia Capital India Growth Investment Holdings I ("SCI-GIH") and up to 4,961,610 Equity Shares by SCI Growth Investments I ("SCI", together with SCI-GIH, "Investor Selling Shareholders") (the Investor Selling Shareholders together with the Promoter Selling Shareholders, the "Selling Shareholders"). In view of the relaxation permitted by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular bearing no. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/66 dated April 21, 2020, and SEBI circular bearing no. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/188 dated September 29, 2020 (the "SEBI Circulars"), the size of the Fresh Issue has been reduced from up to ₹1,450.00 million to up to ₹950.00 million, as permitted under, and in accordance with the SEBI Circulars. Further, the size of the Offer for Sale has been increased from up to 7,163,721 Equity Shares in the aggregate, to up to 8,250,000 Equity Shares in the aggregate, comprising of an Offer for sale of up to 690,700 Equity Shares by our Promoter, Rajendra Gandhi, up to 59,300 Equity Shares by our Promoter, Sunita Rajendra Gandhi, up to 1,492,080 Equity Shares by SCI-GIH and up to 6,007,920 Equity Shares by SCI, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The aforementioned changes are required to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus and the addendum to the DRHP, dated November 20, 2020 ("First Addendum") and accordingly, their references in the Draft Red Herring Prospectus, including on the cover page and in the sections titled "Definitions and Abbreviations", "Offer Document Summary", "The Offer", "General Information", "Capital Structure", "Objects of the Offer", "Other Financial Statements", "Capitalisation Statement", "Other Regulatory and Statutory Disclosures" and "Offer Structure" on pages 1, 14, 45, 51, 58, 70, 240, 241, 254 and 266 of the Draft Red Herring Prospectus, respectively, stand amended to the extent stated in the Second Addendum.

Potential Bidders may note that in order to assist the Bidders to get a complete understanding of the updated information, the relevant portions of the sections titled "Definitions and Abbreviations", "Offer Document Summary", "The Offer", "General Information", "Capital Structure", "Objects of the Offer", "Other Financial Information", "Capitalisation Statement", "Other Regulatory and Statutory Disclosures" and "Offer Structure" have been included in the Second Addendum.

The above is to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum filed with SEBI. The information in the Second Addendum supplements and updates the information in the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum, as applicable, and the Second Addendum has been prepared as per the requirements set out under the SEBI Circulars which includes material updates to the information in the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum, as applicable. Please note that the changes pursuant to the Second Addendum will be appropriately included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges. All capitalised terms used in the Second Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus and the First Addendum.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS	REGISTRAR TO THE OFFER
<b>Edelweiss</b> Edelweiss Financial Services Limited 14th Floor, Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400 098, Maharashtra, India Tel: + 91 22 4009 4400; Fax: +91 22 4086 3610 E-mail: <a href="mailto:sk.ipo@edelweissfin.com">sk.ipo@edelweissfin.com</a> Investor grievance e-mail: <a href="mailto:customerservice.mb@edelweissfin.com">customerservice.mb@edelweissfin.com</a> Website: <a href="http://www.edelweissfin.com">www.edelweissfin.com</a> Contact Person: Disha Doshi/Nilesh Roy SEBI Registration No.: INM000010650	<b>JM FINANCIAL</b> JM Financial Limited 7th Floor, Chenergy Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6630 3030; Fax: +91 22 6630 3330 E-mail: <a href="mailto:sk.ipo@jmf.com">sk.ipo@jmf.com</a> Investor grievance e-mail: <a href="mailto:grievance.lbd@jmf.com">grievance.lbd@jmf.com</a> Website: <a href="http://www.jmf.com">www.jmf.com</a> Contact Person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.: INM000010361
	<b>KFINTECH</b> KFin Technologies Private Limited Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Financial District Nanakramguda, Srinagampally Hyderabad, Rengareddi 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551 E-mail: <a href="mailto:stovekraft.ipo@kfinance.com">stovekraft.ipo@kfinance.com</a> Investor grievance e-mail: <a href="mailto:einward.ri.ipo@kfinance.com">einward.ri.ipo@kfinance.com</a> Website: <a href="http://www.kfinance.com">www.kfinance.com</a> Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration No.: INR000000221

For and on behalf of Stove Kraft Limited  
 Sd/-  
 Shashidhar SK  
 Company Secretary and Compliance Officer

Place: Bengaluru  
 Date: January 12, 2021

STOVE KRAFT LIMITED is proposing, subject to, applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed DRHP, First Addendum and Second Addendum with SEBI. The DRHP, First Addendum and Second Addendum is available on the websites of SEBI, BSE and NSE at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and is available on the websites of the BRLMs, i.e., Edelweiss Financial Services Limited and JM Financial Limited at [www.edelweissfin.com](http://www.edelweissfin.com) and [www.jmf.com](http://www.jmf.com), respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see "Risk Factors" beginning on page 18 of the DRHP. Any decision whether to invest in the Equity Shares may only be made after the Red Herring Prospectus for the same has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP or the First Addendum or the Second Addendum for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S. There will be no offering of the Equity Shares in the United States.



